



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 51 पटना, बुधवार, 26 अग्रहायण, 1930(श0)  
17 दिसम्बर, 2008(ई0)

### विषय-सूची

| पृष्ठ   | पृष्ठ   |
|---|---|
| भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।  | भाग-4—बिहार अधिनियम ---   |
| भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।   | 2-6 भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। --- |
| भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डिप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। | भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकि है। ---   |
| भाग-1 ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि  | भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---        |
| भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।  | भाग-9—विज्ञापन ---  |
| भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।   | भाग-9-क—वन विभाग की निलामी संबंधी सूचनाएं ---   |
|   | भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन, सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं, और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---   |
|   | पूरक ---  |
|   | पूरक-क 11-12  |

### भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)

अधिसूचना

26 अगस्त 2008

सं० I/E1-101/2008-2185—श्री रविन्द्र नाथ झा, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की आकस्मिक मृत्यु के कारण निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री विनोद प्रसाद शर्मा, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा को दिया जाता है। वे अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्य भी संपादित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सचिव।

आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आदेश

24 सितम्बर 2008

सं० 11-03/06 1981/स्था०—मो० कमर आलम, कार्यपालक दंडाधिकारी, निर्मली (सुपौल) को बिहार सेवा संहिता के नियम 227(1), 230 एवं 248 के अंतर्गत दिनांक— 14.04.2008 से दिनांक 12.05.2008 तक कुल 29 (उनतीस) दिनों का अर्जित अवकाश औपबंधिक रूप से स्वीकृत।

प्रस्ताव पर आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-अस्पष्ट,  
आयुक्त के सचिव।

निगरानी विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर 2008

सं० नि०वि०स्था०-123/08-6327—निगरानी विभाग की अधिसूचना संख्या-4427 दिनांक 17.11.06 द्वारा निगरानी विभाग के विशेष (निगरानी) इकाई में मात्र एक वर्ष के लिए अनुबंधित शर्तों के आधार पर बिल्कुल अस्थायी तौर पर नियुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों की सेवाएँ पुनः एक वर्ष के लिये विस्तारित की गयी थी। यह अवधि नवम्बर, 2008 में समाप्त हो रही है। अतएव मंत्रिपरिषद् के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि वैसे सेवा निवृत्त (सी०बी०आई०) पुलिस अधिकारी जो नवम्बर, 2009 के बाद 65 वर्ष की आयु पूरी करते हैं उन्हें अगले एक वर्ष के लिये पूर्व के अनुबंध के शर्तों के सहित रखा जाय। मंत्रिपरिषद् के इस निर्णय के आलोक में नीचे दी गयी तालिका में अधिकारियों को कॉलम-4 में अंकित तिथि तक पुनः अनुबंधित शर्तों के आधार पर बिल्कुल अस्थायी तौर पर एक वर्ष के लिए रखा जाता है।

2. इन पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में एक नवीन अनुबंध पत्र पर पुनः हस्ताक्षर करना होगा।

3. अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

| क्रमांक | केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त अधिकारियों का नाम | पूर्व अनुबंध की तिथि | एक वर्ष के लिए अनुबंध के नवीकरण की अन्तिम तिथि |
|---------|--|----------------------|--|
| 1       | 2  | 3                    | 4  |
| 1.      | श्री एन० एन० सिंह, से०नि० पुलिस अधीक्षक (सी०बी०आई०)        | 28.11.2008           | 29.11.2009                                     |
| 2.      | श्री एस० सी० तिवारी, से०नि० पुलिस अधीक्षक (सी०बी०आई०)      | 28.11.2008           | 29.11.2009                                     |
| 3.      | श्री आर० के० शर्मा, से०नि० पुलिस निरीक्षक (सी०बी०आई०)      | 28.11.2008           | 29.11.2009                                     |
| 4.      | श्री बी० डी० सिंह, से०नि० पुलिस निरीक्षक (सी०बी०आई०)       | 30.11.2008           | 01.12.2009                                     |
| 5.      | श्री बी० एल० तिवारी, से०नि० पुलिस निरीक्षक (सी०बी०आई०)     | 30.11.2008           | 01.12.2009                                     |
| 6.      | श्री एल० आर० पटेल, से०नि० पुलिस अवर निरीक्षक (सी०बी०आई०)   | 30.11.2008           | 01.12.2009                                     |
| 7.      | श्री सी० एल० पटेल, से०नि० पुलिस अवर निरीक्षक (सी०बी०आई०)   | 30.11.2008           | 01.12.2009                                     |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राज कुमार जैन,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

26 नवम्बर 2008

सं० 15334—ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित/सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन निम्नांकित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक परियोजना पदाधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पद पर किया जाता है:-

| क्रम सं० | अधिसूचना संख्या | पदाधिकारियों का नाम/कोटि क्रमांक/ गृह जिला | वर्तमान पदस्थापन  | नव पदस्थापित स्थान एवं जिला                                       |
|----------|-----------------|--|---|---|
| 1.       | 15330,          | श्री संजय कुमार ,<br>1429/08(रोहतास)       | सेवा प्राप्त कार्यपालक दण्डाधिकारी<br>(प्रतिनियुक्ति सुपौल)                               | प्र० वि० पदा०,<br>बसंतपुर, (सुपौल)                                |
| 2.       | 15331,          | सुभाष कुमार,<br>1442/08(सिवान)             | सेवा प्राप्त कार्यपालक दण्डाधिकारी,<br>नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण<br>(प्रतिनियुक्ति सुपौल) | प्र० वि० पदा०, राघोपुर(सुपौल)                                     |
| 3.       | 15332,          | श्री आजीव वत्सराज,<br>1194/04(पटना)        | प्र०वि०पदा०, वसंतपुर, सुपौल   | सहायक परियोजना पदाधिकारी,<br>जिला ग्रामीण विकास<br>अभिकरण, सुपौल  |
| 4.       | 15333,          | श्री विनोद कुमार सिंह,<br>1153/04(भोजपुर)  | प्र०वि०पदा०, राघोपुर, सुपौल   | सहायक परियोजना पदाधिकारी,<br>जिला ग्रामीण विकास<br>अभिकरण,मधेपुरा |
| 5.       | 15334,          | श्री संजय कुमार,<br>1247/04(पटना)          | सहायक परियोजना पदाधिकारी,<br>जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,<br>मुजफ्फरपुर                     | प्र० वि० पदा०, आलमनगर,<br>(मधेपुरा)                               |

- उक्त में निर्वाचन विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।
- उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभास हो तो वर्तमान में निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् उनसे संबंधित पूर्व की अधिसूचना विलोपित की जाती है।
- संबंधित जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारियों को अविलंब विरमित कर नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करें।
- स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने-अपने नव-पदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग में उपलब्ध करावेंगे।
- स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारी हर हालत में माह दिसंबर 2008 का वेतनादि नव पदस्थापित पद एवं जिला से प्राप्त करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-अस्पष्ट,  
सरकार के अवर सचिव।

## उद्योग विभाग

## अधिसूचनाएं

21 अक्टूबर 2008

1. सं0 06 नया (स0)/निदे0प0/ल0उ0नि0/01/01 (खंड) 6509— अधिसूचना संख्या 3010, दिनांक 27.06.07 में संशोधन करते हुये बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की धारा-89 एवं 73 के अधीन श्री हुमायूँ अख्तर राही, संयुक्त सचिव के सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप श्री प्राण मोहन ठाकुर, उद्योग निदेशक को निगम के निदेशक पर्वद में अध्यक्ष एवं निदेशक के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

2. सं0 06 नया (स0)/निदे0प0/ल0उ0नि0/01/01 (खंड) 6510— अधिसूचना संख्या 4980, दिनांक 22.10.07 में संशोधन करते हुये बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि0, पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की धारा-73 के अन्तर्गत श्री दयानन्द प्रसाद, उप उद्योग निदेशक (तक0) के स्थानान्तरण के फलस्वरूप इनके स्थान पर श्री उमेश कुमार सिंह, उप उद्योग निदेशक को निगम के निदेशक पर्वद में निदेशक के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-अस्पष्ट,  
सरकार के अवर सचिव।

31 अक्टूबर 2008

1. सं0-06(स0)नि0प0/सा0वि0नि0/3/2001-6697—बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि0 में प्रबंध निदेशक के रूप में अधिसूचित श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 के स्थान पर श्री प्राण मोहन ठाकुर, भा0प्र0से0 निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार पटना को उनके कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि0 के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की धारा 75(1) के अधीन निगम के निदेशक पर्वद में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्रभार दिया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-अस्पष्ट,  
सरकार के अवर सचिव।

13 अक्टूबर 2008

सं0 06नया(स0)स्थापना(निर्यात निगम)05/01-6345—बिहार राज्य निर्यात निगम लि0 पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 47 (1) के अन्तर्गत निदेशक पर्वद में अपने कार्यों के अतिरिक्त निम्न पदाधिकारियों को निदेशक के रूप में मनोनीत किया जाता है :-

| क्र0 | नाम                    | पदनाम                                   |
|------|------------------------|---|
| 1    | श्री उपेन्द्र कुमार    | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना। |
| 2    | श्रीमती सरिता चौधरी    | संयुक्त उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।     |
| 3    | श्री कौशलाधीश उपाध्याय | अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।    |
| 4    | श्री पी0 पी0 घोष       | उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।          |
| 5    | श्री अनिल कुमार ठाकुर  | उप उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।          |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-अस्पष्ट,  
सरकार के अवर सचिव।

22 सितम्बर 2008

सं०-06(स०)नि०प०(सा०वि०नि०)-03/01-6105—श्री संदीप पौष्पिक, भा० प्र० से०, प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार पटना को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि०, पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेशन की धारा 75(1) के तहत निगम के निदेशक पद में निदेशक के रूप में अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-अस्पष्ट,  
सरकार के अवर सचिव।

4 अप्रैल 2008

सं०-06(स०)विविध/विसीको/अंशधारक/53/07-2175—श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा० प्र० से०, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि० पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेशन की धारा 81 (I) के अधीन निगम के निदेशक पद में निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-अस्पष्ट,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 39-571+10-डी०टी०पी०।



## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश अधिसूचनाएं और नियम आदि।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

17 जुलाई 2008

सं01/वि0-155/2005-5214—सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना पदाधिकारी संबंधी अधिसूचना सं0-1/पी0एम0सी0/विविध/661/2004-1540, दिनांक 21-12-2005 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं:-

1. लोक सूचना पदाधिकारी के मनोनयन संबंधी पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए श्री एस0 एन0 दास, उप-सचिव के स्थान पर श्री इन्दु भूषण कुमार, उप सचिव को लोक सूचना पदाधिकारी मनोनित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति बिहार गजट के अगले अंक में सर्व सूचनाएं प्रकाशित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-अस्पष्ट,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

30 जुलाई 2008

सं01/वि-155/2005-5512—सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना पदाधिकारी संबंधी अधिसूचना संख्या-5214 दिनांक 17-07-08 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं:-

1. लोक सूचना पदाधिकारी के मनोनयन संबंधी पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए श्री इन्दु भूषण कुमार उप सचिव के स्थान पर श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, उप सचिव को लोक सूचना पदाधिकारी मनोनित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति बिहार गजट के अगले अंक में सर्व सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
कौशल किशोर मिश्र,  
सरकार के अवर सचिव।

## ग्रामीण विकास विभाग

## अधिसूचना

3 दिसम्बर 2008

सं0ग्रा.वि.8(थ)-103/08-15667—अधिसूचना संख्या-3259 दिनांक 10.04.07 से अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के दिशा-निर्देश की कंडिका 2.1(ii)(ख) एवं 2.1(ii)(ग) में निहित प्रावधानों को निम्नलिखित संशोधित प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

कंडिका-2.1(ii)(ख) प्रत्येक जिला के जिला पदाधिकारी इस योजना के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे।

कंडिका-2.1 (ii)(ग) प्रत्येक जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इस योजना के अंतर्गत अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे।

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह./-अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव।

(सं0-पुर0-01 / 2004-1097)  
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

## संकल्प

20 अक्टूबर 2008

विषय:- मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग संकल्प सं0-313/रा0, पटना दिनांक 28.03.08 में आंशिक संशोधन।

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना 2007-08 के अधीन प्रकाशन अनुदान के रूप में 33 लेखकों के लिए कुल 5,00,000 (पांच लाख रुपये) स्वीकृत किए गए थे। इनमें से एक लेखक के नाम की अशुद्धि को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है:-

1. क्रमांक 5 पर अंकित श्री रामजी प्रसाद के बदले श्री रामजी पासवान पढ़ा जाय।  
उक्त संशोधन को छोड़कर शेष बातें पूर्ववत् रहेंगी।
2. इस संशोधन में प्रधान सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

श्रीकृष्ण त्रिपाठी,

सरकार के उप-सचिव।

## अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

## कार्यालय आदेश

13 मई 2008

सं02/नि0अनु0-16-102/07-1686—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-2822, दिनांक 27.04.95 तथा कल्याण विभाग के पत्रांक-5974, दिनांक-08.11.96 के आलोक में जिला अनुकम्पा समिति, नवादा से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर श्री जितेन्द्र कुमार, पुत्र-स्व0 देवेन्द्र शर्मा, भूतपूर्व ग्रेन-गोला चौकीदार, नवादा को अनुकम्पा के आधार पर जिला कल्याण कार्यालय, नवादा के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान-3050-75-3950-80-4590 में समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य देय भत्ते के साथ निम्नांकित शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियुक्ति किया जाता है।

1. उनके उपर आश्रित परिवार के भरण-पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
2. श्री जितेन्द्र कुमार की नियुक्ति के संबंध में दिनांक-01.09.05 से प्रभावी " बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-2005" लागू होगी।
3. नियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से 21 दिनों के अंदर वे जिला कल्याण कार्यालय, नवादा में योगदान करेंगे।
4. इनके शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन संबंधित स्थान से करा कर ही वेतन भुगतान की कार्यवाई की जायेगी।
5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, (केवल आरक्षित वर्ग के लिए) सत्यापन हेतु मूल प्रति में तथा सभी प्रमाण पत्रों को किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।



6. योगदान के साथ दिये गये सभी प्रमाण-पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके द्वारा दिये गये सभी प्रमाण-पत्र सत्य हैं तथा जांचोपरान्त गलत पाये जाने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी साथ ही उनके द्वारा सरकारी कोष से प्राप्त राशि की वसूली की जायेगी एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी।
7. योगदान के समय इस आशय का घोषणा पत्र समर्पित करना होगा कि अपने शादी-ब्याह में किसी प्रकार के तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करेंगे।  
(क) योगदान की तिथि से वेतन देय होगा।  
(ख) योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
8. विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा नियुक्ति में संदिग्धता पाये जाने पर जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा अविलम्ब विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
9. विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि तीन माह के अंदर कराना अनिवार्य होगा।

ह0/-अस्पष्ट,  
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 39-571+10-डी0टी0पी0।



# बिहार गजट

## का

## पुरक(अ०)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचनाएं

2 दिसम्बर 2008

सं० के/कारा/रा०प०-62/07-11454—श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन अधीक्षक मंडल कारा, सीतामढ़ी, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय—कारा निरीक्षणालय) के दिनांक 06.11.08 को आपूरक श्री रामलखन यादव से रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किए जाने की घटना के परिपेक्ष्य में इनपर भ्रष्ट आचरण, पद के दुरुपयोग एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के उल्लंघन संबंधी आरोपों की जाँच के लिए विभागीय कार्यवाई प्रारंभ की जाती है।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रवीन्द्र पवार, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री एस० के० अम्बष्ठ, सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
मो० सउद,  
सरकार के उप—सचिव।

2 दिसम्बर 2008

सं० के/कारा/रा०प०-14/08-11480—विभागीय अधिसूचना संख्या-9840 दिनांक 25.07.08 (क्रमांक-4) द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन नहीं करने, गलत तथ्य के आधार पर अवकाश में प्रस्थान करने, सरकार एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने तथा दिनांक 18.12.2007 को आर्दश केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के विभिन्न वार्डों की जाँच में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों के पाये जाने के संदर्भ में कारा महानिरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री दिलीप कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, आर्दश केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति अधिसूचित, अधीक्षक मंडल कारा सीवान को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय कारा निरीक्षणालय, बिहार, पटना का कार्यालय होगा।

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के आलोक में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा जिसका भुगतान स्थापना विपत्र के माध्यम से कारा निरीक्षणालय द्वारा किया जाएगा।

4. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जा रहा है।

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
मो० सउद,  
सरकार के उप—सचिव।

2 दिसम्बर 2008

सं० के/कारा/रा0प0-14/08-11481—श्री दिलीप कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति अधिसूचित, अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान एवं निलंबित पर कर्तव्यहीनता, पदीय दायित्व के निर्वहन में अक्षमता, अदूरदर्शिता, लापरवाही एवं प्रबंधकीय अक्षमता तथा विभागीय स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना संबंधी कारा महानिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित आरोपों (आरोप पत्र संलग्न) की जाँच के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रवीन्द्र पवार, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री एस0 के0 अम्बष्ठ, सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
मो० सउद,  
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट का पूरक (अ0), 39-571+00-डी0टी0पी0।